

APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India **T** +91 11 4320 6650 **F** +91 11 2571 3631 **E** mail@apisindia.com **W** apisindia.com

AIL/CS/2021-22/192 June 22, 2021

To The Manager, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 506166

<u>Subject: Submission of Newspaper Cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Wednesday, June 30, 2021.</u>

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Wednesday, June 30, 2020 as published in Financial Express and Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For APIS India Limited

Digitally signed by WIKSA SGGARWAL

Disc: e-N. on-Prosinal, postals/Code-110085, st-Debit
Std-Debit
Std-De

Vikas Aggarwal (Company Secretary)

Investor Email id: mail@apisindia.com

Encl: a/a

FINANCIAL EXPRESS

India exporting cereals to newer destinations:

Comm min PRESSTRUST OF INDIA New Delhi, June 21

INDIA HAS STARTED exporting cereals like rice and wheat to new destinations, including Puerto Rico, Yemen and Poland, the commerce ministry said on Monday.

Indiashipped non-basmati rice to nine countries, including Timor-Leste, Puerto Rico, Papua New Guinea, Zimbabwe, Burundi, Eswatini, and Nicaragua, where exports were carried for the first time or earlier the shipment was smaller in volume. The total volume of rice exports to these nine countries was 197 tonne in 2019-20 and it has increased to 1.53 lakh tonne in 2020-21.

Similarly, India exported a substantial quantity of grain to sevennew countries -Yemen, Indonesia, Bhutan, Philippines, Iran, Cambodia and Myanmar — during 2020-21.

"Wheat exports did not take place to these seven countries in 2018-19 and only 4 tonne of grain was exported in 2019-20. The volume of exports of wheat to these countries rose to 1.48 lakh tonne in 2020-21," it added.

In the case of exports of other cereals, excluding rice and wheat, India shipped to newerdestinations like Sudan, Poland, Bolivia, Colombia, Congo and Ghana in 2020-21.

Housing prices rise in Q4: RBI data

All-India HPI increased

year-on-year by 2.7% in the

fourth quarter of 2020-21

compared to 3.9% growth a

year ago. The HPI growth

showed largevariation across

major cities, from an increase

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, June 21

THE ALL-INDIA Housing Price Index (HPI) increased 2.7% year-on-year in the March quarter 2020-21, as per a data released by RBI on Monday. The central bank released its quarterly HPI for January-March 2020-21, based on transaction-level datareceived from housing registration authorities in tenmajorcities.

The cities covered are: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow and Mumbai.

APEX APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED (Formerly Apex Home Finance Ltd.) CIN: L65910DL1985PLC021241

Regd. Office: L-3, Green Park Extn. New Delhi-110016 Email: contact@apexfinancials.in Website: www.apexfinancials.in Tele-Fax: +91 11 4034 8775

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Apex Capital and Finance Limited (Formerly Apex Home Finance Limited) ("Company") is scheduled to be held on Wednesday, June 30, 2021 at 5.00 P.M. at L-3, Green Park Extension New Delhi-110016, to inter alia, consider and take on record/approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on March 31, 2021 along with other matters.

The above said information is also available on the Company's website at www.apexfinancials.in & on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. By the Order of the Board

For Apex Capital and Finance Limited (Phul Jha) Place: New Delhi Company Secretary

Date: 21.06.2021 ICSI M. No. ACS 20850

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

Hero MotoCorp Limited Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220 HC Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com Website: www.heromotocorp.com

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd ('Company') are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholder, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said Original Share Certificates (Face Value Rs.2/-) in his favour:

| Folio No. | Name | Value | Distinctive Nos. | No.(s) | Share |
|------------|--------------|---------|-------------------|--------|-------|
| HML0114726 | SHREEVALLABH | Rs.10/- | 19767312-19767331 | 304141 | 20 |
| | RAMGOPAL | | 19767332-19767336 | 304142 | 05 |
| | MANIYAR | | 34264086-34264110 | 394230 | 25 |

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificate as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

> For Hero MotoCorp Ltd Neerja Sharma

Place: New Delhi Company Secretary & Chief Compliance Officer Date: 21.06.2021

of 15.7% (Bengaluru) to a contraction of 3.6% (Jaipur). "On a sequential (quarter-onquarter) basis, all-India HPI growth rate moderated to 0.2% in O4:2020-21," the RBI said.

REGD OFF: 314, 3rd Floor, Opposite Plot No. 39, R. G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 CIN: L65990DL1982PLC256291, PH NO-011-42804171 E-MAIL: infopptinvestment@gmail.com, Website: www.pptinvestment.in

PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 47(1)(a read with regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of Mis Pankaj Piyush Trade & Investment Limited is scheduled to be held on Tuesday 29th day of June, 2021 at 04:00 P.M. at the register office of the Company to consider and approve the Audite Financial Results for the Quarter & Financial Year ender March 31, 2021 and any other matter with the permissio urther details will be available on the website of the Company i.e., www.pptinvestment.in and also on the

vebsite of stock exchange at www.bseindia.com. For Pankaj Plyush Trade & Investment Limited Place: New Delhi Kanika Arora

Company Secretary



(A member of the Amalgamations Group) Regd. Office: D-11/12, Industrial Estate, Maraimalai Nagar - 603 209. Phone: 044 - 27452816. email: investor@iprings.com Website: www.iprings.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

| 859,4 | | Qu | arter Ende | Year Ended | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SI. No. | Particulars | 31.03.2021 | 31.12.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| | 1800-00-00-00-0 | Refer Note 5 | Unaudited | Refer Note 5 | Audited | Audited |
| 1 | Total Income from Operations | 7,639.01 | 6,662.78 | 4,533.09 | 19,946.01 | 19,858.88 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) | 547.77 | 560.13 | (113.65) | 654.01 | 173.91 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) | 547.77 | 560.13 | (113.65) | 654.01 | 173.91 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) | 408.65 | 416.57 | (109.13) | 496,81 | 110.11 |
| | Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)) | 362.80 | 414.97 | (107.97) | 434.22 | 95.50 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital | 1,267.59 | 1,267.59 | 1,267.59 | 1,267.59 | 1,267.59 |
| 7 | Other Equity | 25 | | | 9,271.71 | 8,837.49 |
| | Earnings Per Share of Rs.10/- each (for continuing and discontinued operations) | 2.22 | 2.00 | (0.00) | 2.00 | 0.03 |
| | a) Basic b) Diluted | 3.22 3.22 | 3.29 3.29 | (0.86) | 3.92 3.92 | 0.87 0.87 |

approved by the Board of Directors at their Meeting held on June 21, 2021. The information for the year ended March 31, 2021 and March 31, 2020 presented above is extracted from the audited financial statements for the year ended March 31,2021. These financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2. The Board of Directors of the Company, being the Chief Operating Decision Maker ('CODM'), based on

The above results were reviewed by the Audit Committee at their Meeting held on June 19, 2021 and then

the internal business reporting system, identified that the Company has only one segment viz. manufacture and sale of Auto Component - Piston Rings, Differential Gears, Pole Wheel and other transmission Components. Accordingly there are no other reportable segments in terms of Ind AS 108 3. The outbreak of Coronavirus (Covid-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. In such a situation, the Company has taken due care in concluding on accounting judgements and estimates; viz., in relation to recoverability of receivables,

assessment of impairment of assets and inventory , based on the internal and external information available up to the date of approval of these financial results and expects to recover the carrying value of its assets. The actual impact of the global health pandemic may be different from that which has been estimated, as the COVID-19 situation evolves in India and globally. The Company continues to monitor the economic effects of the pandemic on the operations and take appropriate actions as and when

The Board of Directors have recommended a payment of dividend of Re. 1.50 per equity share (on equity share of face value of Rs. 10/- each) for the year ended 31st March 2021. The payment is subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

The figures for the quarter ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the quarter ended December 31, 2020 and December 31, 2019 respectively, which were subject to limited review by the statutory auditors.

6. The previous period/year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year classification.

for IP Rings Ltd.

A. Venkataramani Managing Director

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT DELHI E-mail ID> nstp.djb@gmail.com, Phone No 011-27602302

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 128/2021-22

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW) VII NSTP CORONATION PILLAR DELHI-110009



(Er. O.P. Yadav)

EXECUTIVE ENGINEER (SDW) VI

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 3 (2021-22) Name of work Earnest Date of release of tender in E-Procurement receipt of tender through e-procurement solution solution Deployment of staff for Operation & 21.06.2021 05.07.2021 minor maintenance of all allied E & M Tender ID. No. is at 1.00 PM Rate 94500/equipments at Narela STP 2021_DJB_204630_1

NIT along with all terms & conditions is available on website https://govtprocurement.delhi.gov.in.

POST OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF SPACEAGE PRODUCTS LIMITED

Corporate Identification Number:L15100MH1980PLC267131 Registered Office:- B-702, 7th Floor, Neelkanth Business Park, Near Bus Depot, Vidyavihar West Mumbai City - 400086 Email: roc.spaceage@gmail.com | Website: www.spaceageproducts.co.in; Open Offer ("Offer") for Acquisition of upto 8,12,422 (Eight Lakhs Twelve Thousand Four Hundred and Twenty Two) Equity

Mr. Balakrishna Tati ("Acquirer") along with Ms. Padma Tati ("PAC 1"), Ms. Tati Shruti ("PAC 2"), Mr. Tati Sai Teja ("PAC 3"), Mr. 1 Venkateshwarlu ("PAC 4"), Ms. Tati Thulasi Dalaxi ("PAC 5"), M/s Valbe Foods (India) Private Limited ("PAC 6") A Company Incorporated under the Companies Act 1956, M/s Chin Corp Holding Pte Limited ("PAC 7") an entity incorporated in Singapore, Mr. Mohit Rathi ("PAC 8") and Mr. Vishal Jethalia ("PAC 9"). This Post Offer Advertisement is being issued by Fast Track Finsec Private Limited ("Manager to the Offer") on behalf of the

Shares of INR 10/- (Rupees Ten only) each from equity shareholders of Spaceage Products Limited ("Target Company"), by

Acquirer along with PACs in connection with the Offer made by the Acquirer along with the PACs to acquire 8,12,422 (Eight Lakhs Twelve Thousand Four Hundred and Twenty Two) Equity Shares of Face Value of INR 10/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") of the Target Company at INR 20/- (Rupees Twenty Only) per Equity Shares, representing 26% of the outstanding Equity Share Capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and amendments thereof ["SEBI (SAST) Regulations, 2011" / Regulations]. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made in the Financial Express (English - All Edition), Jansatta (Hindi - All edition) and Mumbai Lakshdeep (Mumbai edition) on March

| 1 | Name of the Target Company Spaceage Products Limited | | | | | |
|------------|---|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 2 | Name of the Acquirer and PACs | Balakrishna Tati (Acquirer), Padma Tati ("PAC 1"), Tati Shruti ("PAC 2"), Tati Sai Teja ("PAC 3"), T Venkateshwarlu ("PAC 4"), Tati Thula Dalaxi ("PAC 5"), M/s Valbe Foods (India) Private Limited ("PAC 6") Company Incorporated under the Companies Act 1956, M/s Ch Corp Holding Pte Limited ("PAC 7") an entity incorporated Singapore, Mohit Rathi ("PAC 8") and Vishal Jethalia ("PAC 9") | | | | |
| 3 | Name of the Manager to the Offer | Fast Track Fins | ec Private Limited | | | |
| 4 | Name of the Registrar of the Offer | Purva Sharegis | try (India) Pvt Ltd | | | |
| 5 | Offer Details: a) Date of Opening of the Offer b) Date of Closure of the Offer | June 02, 2021, Wednesday June 15, 2021, Tuesday | | | | |
| 6 | Date of Completion of Payment of Consideration and communication of Rejection/ Acceptance | CONTRACTOR OF STREET AND ADDRESS OF THE | | | | |
| 7 | Details of the Acquisition: | | | | | |
| Sr. No. | Particulars | Proposed in 1 | the Letter of Offer | Act | uals | |
| 7.1 | Offer Price | INR 20/- (Ruj | pees Twenty Only) | INR 20/- (Rupees Twenty On | | |
| 7.2 | Aggregate No. of Shares Tendered | 8,12,422 [| Equity Shares* | Nil | | |
| 7.3 | Aggregate No. of Shares Accepted | 8,12,422 (| Equity Shares* | Nil | | |
| 7.4 | Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Shares) | Rs. 1,62,48,440/- (Rupees One Crore Sixty Two Lakhs Forty Eight Thousand Four Hundred and Forty Only) | | Nil | | |
| 7.5 | Shareholding of the Acquirer before Public Announcement a) No. b) % of Equity Share Capital | Nii Nii | | Nil Nil | | |
| 7.6 | Shares acquired/ to be acquired by way of Share Swap Agreement a) No. b) % of Equity Share Capital | 5,10,44,304 72,13% | | 5.04.12.944** 72.02% | | |
| 7.7 | Shares acquired by way of Open Offer a) No. b) % of Equity Share Capital | 8,12,422° 26%° | | Nil | | |
| 7.8 | Shares acquired after Detailed Public Statement ("DPS") a) No. b) % of Equity Share Capital c) Price of Shares acquired | Nii Nii Nii | | Nil Nil Nil | | |
| 7.9 | Post Offer shareholding of the Acquirer and PACs | No. of Shares | & of Equity Share Capital | No. of Shares | & of Equity Share Capital | |
| | | 5,10,44,304 | 72.13% | 5,04,12,944** | 72.02% | |
| 7.10 | Pre & Post Offer shareholding of the Public | Pre-Offer | Post-Offer | Pre-Offer | Post-Offer | |
| | a) No. b) % of Equity Share Capital | 29,09,515 1,95,01,637 93,11% 27,56% | | 29,09,515 93,11% | 1,93,74,145 27.67% | |

Actual Shares will be held by promoter and public after receiving the In-principal approval and allotment made by the Company. At present. In-principal approval is pending for the proposed allotment at the end of BSE The Acquirer along with PACs severally and jointly accepts full responsibility for the information contained in this Post

Offer Advertisement and also for the obligations under Regulations. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI, BSE Limited and registered office of

Capitalized terms used in this Advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated 25.05.2021

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer:

Fastrack Finsec
Category Merchant Barber

B-502, Statesman House, 147 Barakhamba Road, New Delhi- 110001 Tel. No.: 011-43029809

Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma SEBI Reg. No.: INM000012500

Fast Track Finsec Private Limited

Place: New Delhi Date: June 21,2021

Email:Vikasverma@ftfinsec.com CIN: U65191DL2010PTC200381

Œ CENTURY EXTRUSIONS LIMITED CIN: L27203WB1988PLC043705 Regd Office: 113, Park Street N' Block, 2nd Floor, Kolkata- 700016

Website: www.centuryextrusions.com

E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended. Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 29th June, 2021, at 11:30 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC / OA VM") facility inter alia, to consider, approve and take on record

Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2021. This Notice is also available on the website of the Company at www.centuryextrusions.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and

the Audited Financial Results of the

www.nseindia.com For Century Extrusions Limited (Rohit Kumar) Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata Date: 21.06.2021



Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar New Delhi-110008 Tel: 011-43206650 | Fax: 011-2571363 E-mail:mail@apisindia.com Website: www.apisindia.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 30th day of June, 2021, at the Registered Office of the Company at 18/32, East Patel Nagar New Delhi-110008, inter alia to transact

 A. To consider, approve and take on record the audited financial results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and financial year ended March 31, 2021. To consider the recommendation of dividend on preference shares, it any, for the financial year ended March 31, 2021, subject to the approval of the shareholders at the

ensuing Annual General Meeting.

the following businesses:

C. Any other business with the permission of chair. Further for the purpose of above and in terms of Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the intimation regarding the closure of trading window [i.e. from Thursday, April 01, 2021 till Forty Eight (48) hours post the date of Board Meeting] for dealing in the securities of the

Company has already been submitted to the Stock Exchanges. The said notice is also available on the website of the company at www.apisindia.com and on the website of the Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com

For APIS India Limited Sd/ Amit Anano (Managing Director) DIN: 00951321 Place: New Delhi Date: June 21, 2021

financialexp.epapr.in

5.P. APPARELS LIMITED CIN: L18101TZ2005PLC012295

Regd. Office: 39 - A, Extention Street, Kaikattipudur, Avinashi - 641 654, Tirupur, Tamilnadu Tel: +91-4296-714000, Fax: +91-4296-714280, 714281 E-mail: csoffice@s-p-apparels.com, Website: www.spapparels.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2021

(Rupees in millions except EPS and unless otherwise stated)

| SI.No. | Particulars | Quarter ended March 31, 2021 [Audited] | Quarter ended December 31, 2020 [Unaudited] | Quarter ended March 31, 2020 [Audited] | For the Year ended March 31, 2021 [Audited] | For the year ended March 31, 2020 [Audited] |
|--------|--|--|---|--|---|---|
| 1 | Total Income from operations | 1,920.52 | 2,097.67 | 1,695.23 | 6,536.90 | 8,326.73 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | 151.88 | 266.19 | 51.62 | 591.42 | 541.40 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after, Exceptional and/or Extraordinary items#) | 151.88 | 266.19 | 51.62 | 591.42 | 444.09 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after, Exceptional and/or Extraordinary items#) | 105.57 | 196.54 | 28.09 | 431.72 | 469.19 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 9.22 | 157.66 | 16.43 | 346.53 | 395.01 |
| 6 | 'Paid-up equity share capital (face value Rs. 10/-) [Amount] | 25,69,26,000 | 25,69,26,000 | 25,69,26,000 | 25,69,26,000 | 25,69,26,000 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | | 848 | 15 | 5,326.92 | 4,975.29 |
| 8 | 'Earning Per Share (Rs.) - Basic and Diluted [Net Profit/(loss) for the period after tax/Weighted average number of equity share | 4.11 | 7.65 | 1.09 | 16.80 | 18.26 |
| | | [Not annualised] | [Not annualised] | [Not annualised] | [Annualised] | [Annualised] |

See accompanying notes to the Financial Results

Notes:

The above audited consolidated financial results for the guarter and twelve months ended March 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on June 21, 2021.

2. This statement has been prepared in accordance with the recognition principle laid down in Indian Accounting Standards 34 "Interim Financial Reporting" [IND AS 34], prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies.

The company operates in one segment (i.e.,) Textile business, which in the context of Indian Accounting standard (IND AS)108 - operating segment, is considered as the only reportable operating segment of the company. 4. Effective 01.04.2019, the Company has adopted Ind AS 116-leases, applied to its existing lease contracts on April 1, 2019 using the modified retrospective approach.

5. Pursuant to the amendment in the Income Tax Act, 1961 effective 20.09.2019, which provides for an option to Domestic Companies to pay Income Tax at reduced rates, the current tax expenses of the Company reduced by Rs.40.18 Million and the deferred tax income of the company increased by Rs.128.31 Million for the year ended Mach 31, 2020.

 The results for the quarter ended March 31, 2021 is the balancing figures between consolidated audited figures of the twelve months ended March 31, 2021 and the published unaudited results of nine months ended December 31, 2020 of the current financial year were subjected to limited review.

Government of India vide press release dated December 31, 2020 introduced the benefit of the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) to all export goods with effect from January 01, 2021. With the introduction of the RoDTEP scheme, the benefit of ROSCTL scheme stood withdrawn with effect from January 01, 2021. Considering that the rates of RoDTEP are yet to be notified, the Company has not accrued income relating to benefits of RoDTEP scheme for the period January 01, 2021 to March 31, 2021. To this extent the results of the Quarter and year ended March 31, 2021 are not comparable.

B. Exceptional item relates to Merchandise Export from India Scheme (MEIS) export incentive accounted as Income in earlier quarters which was derecognized in the Quarter ended December 31, 2019 in order give effect to Notification dated January 14, 2020 of Ministry of Textiles withdrawing MEIS retrospectively from

 As per interim directions given by Supreme court in relation to WRIT PETITION (C) DIARY No. 10983 OF 2020 dated June 12, 2020, Company has negotiated & entered into settlement with the employees for non-payment of salary during factory lockdown period from April 01, 2020 to May 11, 2020. The Company have communicated their steps to the employees and there have been no denial from employees

10. Due to the second wave of spreading of COVID -19 across India, the State Government of Tamil Nadu announced a lockdown in the months of April 2021 till June 2021, [the Company suspended operation across various locations during complete lockdown days], which was extended with various restrictions to contain the spread of the virus The Company has adopted measures to curb the spread of infection in order to protect the health of its employees and ensure business continuity with minimal disruption. In view of the pandemic, the Company has considered internal and external information and has performed an analysis based on current estimates while assessing the recoverability of assets including trade receivables, inventory and other current / non-current assets (net of provisions established) for any possible impact on the standalone financial results. The Company has also assessed the impact of this whole situation on its capital and financial resources, profitability, liquidity position, internal financial controls etc., and is of the view that based on its present assessment, the carrying amount of the assets will be recovered and no material adjustments is required in the preparation of standalone financial results. The Management believes that the Company will not have any challenge in meeting its financial obligations for the financial year 2021-22. In this regard, the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions

11. The Code on Social Security 2020 has been notified in the Official Gazette on September 29, 2020, which could impact the contributions by the company towards Provident Fund, Gratuity and other social security. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified, and the rules are yet to be framed. Impact, if any, of the change will be assessed and accounted in period of notification of the relevant provisions. 12. The consolidated financial results includes the interim financial results of one subsidiaries which have been consolidated based on management accounts, whose

interim financial results reflect total revenue of Rs. 769.88 million for the year ended March 31, 2021 and Total Comprehensive Income of Rs 28.58 million for the year ended March 31, 2021 as considered in the consolidated financial results. 13. Events after reporting period: The board has recommended a final dividend of 22.5% [INR 2.25/- per share of the face value of INR 10/- each] for the year

2020-21 subject to the approval of the Shareholders in the Annual General Meeting 14. Previous period figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the current period classification / presentation.

> For S.P.Apparels Limited P.Sundararajan Managing Director DIN: 00003380

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF **NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LIMITED**

Corporate Identification Number (CIN): L45200MH1984PLC034789

Registered Office: 507, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053. Contact No: 022 - 2633 5583 / 84 | Website: www.easy2source.com | E-mail Id: netlink@easy2source.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 6,57,600 (SIX LAKHS FIFTY SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED ONLY) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF ₹ 10/- EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LIMITED ("NETLINK" "TARGET COMPANY") BY JUPITER INFOMEDIA LIMITED ("JUPITER" / "ACQUIRER NO 1") AND JINESHVAR SECURITIES PRIVATE LIMITED ("JINESHVAR" / "ACQUIRER NO 2") (HEREIN AFTER COLLECTIVELY REFER TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST)

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by Aryaman Financial Services

Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirers, in compliance with SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto pursuant to changes / amendments as per SEBI observation letter SEBI/HO/ CFD/DCR2/P/OW/2021/12300/1 dated June 15, 2021. Capitalized terms used in this Corrigendum but not defined herein shall have the same meaning as defined in the Detailed Public Statement. This Corrigendum is being issued in all the newspapers in which the Detailed Public Statement was published.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER.

(1) This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. There has been no

(2) The underlying transaction under the Share Purchase Agreement was subject to the approval of shareholders of the Acquirer for the related party transaction. The Acquirer had received the requisite shareholders approval for the proposed Related Party Transaction. The result of the shareholders approval was declared on April 10, 2021.

(3) Jineshvar Securities Private Limited ("Acquirer No 2" / "Jineshvar") is in the business of investment in shares and securities and is registered with RBI as Non- Banking Finance Company ("NBFC") without accepting public deposits. For acquisition of shares of the Target Company by Jineshvar, neither any approval nor any "No Objection Certificate" is required to be

obtain by Jineshvar from the RBI. (4) As on the date of this advertisement, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Open Offer. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a

later date before the completion of the Open Offer. (5) The current Promoters of the Target Company have not filed the report as prescribed under Regulation 10(7) of SEBI SAST Regulations and accordingly there are instances of non-compliances with the SEBI SAST Regulations by the current Promoters, for which SEBI may initiate suitable action against the said entities.

(6) There are no directions subsisting or proceedings pending against the Acquirers, Target Company, Manager to the Open Offer under SEBI Act, 1992 and regulations made there under.

(7) The Letter of Offer ("LoF") will be dispatch through electric means to all the Public Shareholders of the Target Company whose name appeared on the register of members on the Identified date and who have registered their e-mail ids with the Depositories and / or the Target Company, and the dispatch through Physical means to all the remaining Public Shareholders on or before June 24, 2021. Please note that a copy of the Letter of Offer will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

(8) The revised Schedule of Activities pertaining to the Offer is set forth below:

| Major Activities | (Date & Day) | (Date & Day) | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Public Announcement | March 04, 2021 (Thursday) | March 04, 2021 (Thursday) | |
| Publication of Detailed Public Statement | March 12, 2021 (Friday) | March 12, 2021 (Friday) | |
| Filing of Draft Letter of Offer with SEBI | March 19, 2021 (Friday) | March 19, 2021 (Friday) | |
| Last Date for a Competitive Bid* | April 06, 2021 (Tuesday) | April 06, 2021 (Tuesday) | |
| Receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer | April 15, 2021 (Thursday) | June 15, 2021 (Tuesday) | |
| Identified Date** | April 19, 2021 (Monday) | June 17, 2021 (Thursday) | |
| Date by which Letter of Offer be posted to the Shareholder | April 27, 2021 (Tuesday) | June 24, 2021 (Thursday) | |
| Comments on the Offer by a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company | April 30, 2021 (Friday) | June 29, 2021 (Tuesday) | |
| Last Day of Revision of Offer Price / Share | May 03, 2021 (Monday) | June 30, 2021 (Wednesday) | |
| Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers | May 03, 2021 (Monday) | June 30, 2021 (Wednesday) | |
| Date of Opening of the Offer | May 04, 2021 (Tuesday) | July 01, 2021 (Thursday) | |
| Date of Closing of the Offer | May 18, 2021 (Tuesday) | July 14, 2021 (Wednesday) | |
| Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the acquired share | June 02, 2021 (Wednesday) | July 29, 2021 (Thursday) | |

*There has been no competing offer in this offer

** Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owner (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except Acquirer, person acting in concert with Acquirers and Sellers of the Target Company) are eligible to participate in the offer any time before

The Acquirers accept the responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

Contact Person: Mr. Deepak Biyani

THIS ANNOUNCEMENT IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS. ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED



Place: Mumbai

(CIN No.: L74899DL1994PLC059009) 60, Khatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Towers (BSE Building), Fort, Mumbai - 400 001. Tel: 022 - 6216 6999; Website: www.afsl.co.in | Email: info@afsl.co.in

Date: June 21, 2021

New Delhi

Date: June 21, 2021

Place: Avinashi

Date : June 21, 2021

Place: Chennai

के परिवर्तन के लिये स्पाचार पत्र में प्रकाष्ट्रन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, महं दिल्ली के समक्ष कप्पनी अधिनिवप, 2013, कंपनी अधिनिवप, 2013 की धारा 13 (4) तब कंपनी (निगयन) निवपावली,

औरेसर लैबोरेटरीय प्राइंग्रेट तिपिटेड विसका पंजीकर कार्यातव है: एससीओ -867, कैबिन नं, 18, एनएसी, पणिपा वज्, चंडीगढ़-160101, के पापते में।

2014 के स्थिप 30(5) (ए) के पापते में

एक्ट्राह आप जनता को हवित किया जाता है कि '' संघ 🗦 वंडीगढ़" हे "पंजाब हज्ब" में उसके पंजीकृत कार्यातव को परिवर्धित करने के लिए कंपने को स्थप बनाने के लिए सुक्रधार, 5 फरवरों 2021 को आबीबित अञ्चाधारण आपराधा में पारित विशेष प्रस्तव के अनुसार कंपनी के पेपोरैंडम ऑफ एशेशिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपने अधिनियम, 2013 को धारा 13 के अंगांत बह कंपनी केन्द्र शरकार के पास आवेदन करने का प्रस्मव करती है।

कंपनों के पंजीकृत कार्यात्तव के इस प्रस्तवित परिवर्तन से बदि किसी व्यक्ति का हिन प्रशावित होता हो, वे एमशीए-21 पोर्टत (www.mca.gov.in) पर निवेष्ठक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अवद्या उसके नीचे वर्षित पंजीकृत कार्यात्व में आधेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के शाम इस सुवना के प्रकाशन की तिमि से चौदह दिनों के भीकर अपने हिक को प्रकृति तथा आपति के कारणों का उत्लेख करने हुए एक शपभ पत्र द्वारा सपर्वित अपनी आपति श्रेडीय निदेशक (उत्तरी श्रेड) कॉर्पेरिट कार्व पंजलब, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्वावरण भवन, श्रीजोओ कॉम्प्लैक्श, नई दिल्ली-110003 में जमा करें वा उमा कहएं वा पंजीकृत डाक से भेजें: पंजीकृत कार्यालयः एससीओ - 367, कैबिन में, 18,

एनएसी, पणियाज है, चंडीगढ़-160101

उनको और से इ.स्म./- राहुत प्रकाश निरेशक, DIN: 05209588 ਜਿਗਲੀ: 361, ਪ੍ਰਜੀਟ ਜੰ, 35, स्काई ताके अपारंगेन्ट रुमानः चंद्रीगद्ध र्मेक्टर+६. द्वारका दिल्ली - 1 10075 तिभिः 21.6.2021

निदेशक पंडल के लिए तथा

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

हरजोग शेयरहोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U67120CH2005PTC028913) जिसका पंजीकृत कार्यालय: 2523, सैक्टर

35सी, चंडीगढ, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ -160022 में हैं, के मामले मेंआवेदक कंपनी / याचिकाकर्त्ता

तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" से "पंजाब राज्य" मे स्थानांतरित करने के लिए 17 जून 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रश्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकत

कार्यालय पते पर भी भेजें। 2523, सैक्टर 35सी, चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ -160022 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

प्रताप सिंह चीमा (निदेशक)

दिनांक: 21.06,2021 डीआईएन: 00072857 स्थान: चंडीगढ़

हरजोग शेयरहोल्डिंग प्राइबेट लिमिटेड

ब्रिज एण्ड रूफ कॉ (इंडिया) लि. (भारत सरकार का उपक्रम)

CIN No: U27310WB1920GOI003601 "कंकरिया सेंटर", (चौथा व पांचवा तल), 2/1, रूसेल स्ट्रीट, कोल-700071

इ-निवदा आमत्रण सूचना (इ-एनआइटी) निवदा न.

B&R/HO/SMART-PARK/51208/ANGUL/NIT/CW/01

"अंगुल नगर पालिका, ओडिशा सरकार के अंतर्गत अंगुल, ओडिशा में स्मार्ट पार्क का निर्माण और भूनिर्माण कार्य (सॉफ्टस्कैप व हाईस्कैप) का विकास" के कार्य के लिए निर्धारित अर्हक मानदंड पुरा करने वाले प्रतिष्ठित, संसाधन-संपन्न और अनुभवी पार्टियों से दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन एकल प्रतिशत दर बोली/प्रास्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक बोलीदाता को सरकारी ई-खरीद प्रणाली https://eprocure.gov.in पर लॉगइन के माध्यम से नामोकन एवं पंजीकरण करना होगा।

शुद्धिपत्र/संशोधन, यदि कोई होगा, केवल कंपनी वेबसाइट: www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टलः https://eprocure.gov.in

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 06.07.2021 को या उससे पूर्व।

CORDS को इसे केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74999DL1991PLC046092 फेजी. कार्यो.: २४, 1ला तल, शम्भू दयाल बाग मार्ग, निकट औखला औद्यौगिक क्षेत्र, फेज-III, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-20

Tel: 011-40551200, Fax No. 011-40551280/81 Website: www.cordscable.com, E-Mail: ccil@cordscable.com,

रोबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेप) विनियपन, 2015 तथा, इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिए कप्पनी की संहिता के अनुपालन में सभी निदेशकों, विनिर्दिष्ट कर्मचारियों, इन्सायडर्स तथा उनके नजदीकी संबध्धियों के लिये कप्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो गुरुवार, 1 जुलाई, 2021 हो 30 जून 2021 को हामाप्त 1 ली तिमाही/तीन महीने के लिये अनंकेषित वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक करने के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे।

तदुनुसार सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, निदेशकों, प्रवक्तीकों, कंसर्ट में कार्यरत व्यक्तियों, कम्पनी के कर्पचारियों के साथ उनके संबंधित निकटतम संबंधियों, व्यक्तियों जिनका अनुबंधात्मक तथा कम्पनी के साथ फिडुसिअरी संबंध हो, लेकिन ऑडिटर्स, एकाडन्टैन्सी फर्प, लॉ फर्प, विश्लेषक, कंसलटैन्ट्स आदि जो कप्पनी की सहायता अथवा उसे सलाह दे रहे हों, तक सीपित नहीं, से शापिल, इस ट्रेडिंग विण्डों के बंद रहने की अविध के दौरान प्रतिभूतियों में व्यवसायः ट्रेडिंग के लिये किसी भी कारोबार में शामिल नहीं होंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से कौड्रों केबल इंडरट्रीज ति. के लिए

रश्यानः नई दिल्ली तिथिः २१ जून, २०२१

कार्यालय नगर निगम, (कोटा उत्तर) (राज.) कपांकः ननिकोउ/निपांग/2021 - 22/2814 - 25

ई-पुनः निविदा सूचना संख्याः 08/2021-22

नगर निगम कोटा द्वारा शिभिन्न अभियानिको विभागों के "A", "AA" श्रेणी एशं नगर निगम कोटा में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको/रजिस्टर्ड विनिर्मात/वित्रक से ई-निविद्या द्वारा Two Bid System पद्धति से निप्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आपन्त्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा ४पत्र नगर निगम की रेष्ठसाइंट www.kotame.org, www.kotamunicipal.org, http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकेंगे।

 निविदा डाठनलोड करने की तिथि (वैभागईट से) निविदा अपलोड करने की तिथि

: 22.06.2021 से 01.07.2021 वक : 22.06.2021 से 01.07.2021 तक ईएमडी/निविदा शुक्क/प्रोहेिहांग फील प्राप्त करने की तिथि : 02.07.2021 (दोपहर 2.00 अने तक)

निविद्या/तकनीकी ब्रिड खोलने की विधि

: 02.07.2021 (सार्य 4.00 अने) तकनीकी ब्रिड परीक्षण के पश्चात्

💻 वितीय ब्रिड खोलने की तिथि

कार्य पुण

करने की अवधि कीटा नगर निगम सीमा क्षेत्र में वृक्षारीयम हेतु 49.50 मुख्य मार्गो पर ट्वी गार्ड सप्लाई डर्क।

2 कोटानगर निगम सीमा क्षेत्र में वृक्षारीयम केंद्रु 12.45 . निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों/कर्मों द्वारा जमा की जाने वाली टेण्डर फीस आयुक्त नगर निगम

कोटा, उत्तर के नाम एवं प्रोहेसिंग फीस MD RISL JAIPUR के नाम देव होगी। . निविदाओं में भाग सेने आसे संवेदकों/कर्मों द्वारा विश्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 2(1) विश जीएण्डटी-एरापीएफरी/2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसरण में निर्धारित मोक्णा-पत्र (DECLA-

प्रोहेरिंग फीरा के ही ही के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। नोट:- तकनीकी ब्रिड खोलने की तिथि पर किसी भी कारण यश अधकाश होने पर आगामी कार्य दिवस पर प्राप्त य खोली जावेगी।

R ATTON) 50 रु. स्टाप्प पेपर पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज सहित मूल स्टाप्प टेण्डर फीस एसं

अति. आयुक्ता

नगर निगम कोटा उतर

अंटार्कटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L29212DL1983PLC088911 जी-1, भूतल, गगनदीप भवन, राजेंद्र पैलेस, नई दिल्ली ढीएल 110008 ई–単冊: antarctic44 @ gmail.com

पोस्टल बैलेट और ई-बोटिंग का परिणाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनीन एक्ट, 2013 की भारा 110 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने सूचीबद्ध विशेष व्यापार के लिए पोरुटल बैलेट और रिपोट ई-बोटिंग के पाध्यप से विशेष प्रस्ताव पारित करने द्वारा शेयरधास्की रो अनुपोदन पांगने के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 12 फरवरी, 2021 को भेजा जा चुका है। रांबीक्षक रिपोर्ट दिनांक 21 जून, 2021 के आधार पर, अध्यक्ष ने नीचे दिए अनुसार पोस्टल बैलेट

| मद इं. | विशेष प्रस्ताव का संक्षिप्र विवस्ण | र्वध थोटों की कुल सं. | पक्ष में डाले गए कुल बोट | | | विशेध में डाले गए कुल बोट | |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| | साक्षम ।व्यवस्थ | | विधि | शेवर्स की सं. | वोट का % | शेवर्स की सं. | वोट का % |
| 1 | रोबी (इकिस्टी शेयरों की डीलिरिटम) विनियम, 2009, यथा संशोधित, के अनुवर्ती कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिपिटेड, जहा कपनी के शेयर सूचीबद्ध है, से कंपनी के इकिस्टी शेयर्स के स्वैच्छिक डीलिरिटम के | 14 | भौतिक इलैक्ट्रॉनिक कुल | 99,170 3,95,830 4,95,000 | 20.03 79.97 100.00 | शून्य शून्य शून्य | शु-य शु-य शु-य |

लिए विशेष प्रस्ताव । तदनुसार, उपरोक्त विशेष प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया है। पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग के परिणाम के मोषणा की रिश्वि अर्थात 21 जून, 2021 को विरोध प्रस्ताव को पारित करने की रिश्वि के तौर पर विचारा गया है। पोस्टल बैलेट का परिणाम एनएसडीएल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है और कंपनी की वेगसाईट (www.anlarclicindustries.com) पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ पोस्ट किया गया है तथा शेयर बाजार, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, को भेजा गया है।

बोर्ड के उग्रदेशानुसार कृते अंटार्कीटक इंडस्ट्रीज लिपिटेड संजय जैन निदेशक

DIN: 00528310

13 Hero

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ांजीकृत कार्यालयः द ग्रैंड प्लाजा, प्लॉट नंबर २, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज- ॥, नई दिल्ली - 110070 सीआईएन: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220

फैक्स: 011-46044399 | ई-मेल: secretarialho@heromotocorp.com

वेबसाइट: www.heromotocorp.com इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मीजुदा शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि मल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गम हो

| गए हैं, ऐसी सूचना संबंधित शेयरधारकों से इस संबंध में प्राप्त हुई हैं। कंपनी उसके पक्ष में मूल शेयर प्रमाणपत्र (अंकित मूल्य रू- 2/-) के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है : | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| फोलियों नं. | शेयरधारकों का नाम | अंकित मूल्य | डिसटिन्कटिव नं. | प्रमाणपत्र संख्या | शेयरो की संख्या | | | | |
| HML0114726 | श्रीवल्लभ रामगोपाल | ₹. 10/- | 19767312-19767331 19767332-19767336 | 304141 304142 | 20 05 | | | | |

394230 34264086-34264110 किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेखित शेयर प्रमाणपत्रें में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है। कते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 21.06.2021 कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

PRECISION ELECTRONICS LIMITED Regd. Office: D-1081, New Friends Colony New Delhi-110 025 CIN: L32104DL1979PLC009590

Notice of Board Meeting Notice is hereby given that pursuant t SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of Board of Directors of the Company shall be held on Monday, June 28, 2021 at 12.00 p.m. to consider inter-alia the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021

The notice is also available on Company's website www.pel-india.in and Bombay stock exchange www.bseindia.com. For Precision Electronics Limited Veenita Puri

Company Secretary Date: 21.06.2021 & Compliance Officer

श्री अपरनाथ फाइनेन्स लिपिटंड पंजीकृत कार्यातयः ४८६३-८४. द्वितीय मंजित मेन रोड कुवा उस्ताद दाए, वादनी वॉक् <u>ਵਿ</u>ਰਗੀ-110006 CIN.L74899DL198SPLC020194

Email, amarnat n0 ffmance@gmail.com

दुरुभाष: 011-23953204

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015. के नियमन 47 [1] [ए] के अनुसरण में एसद्हारा सूचना प्रदान की जाती है कि 31, मार्च 2021 को सनाम सिनाडी एवं बाविंक के अंकेतित विगीव परिणानी पर विद्यार एवं अनुमोदन करने हेत् कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 30 जून, 2021 को आयोजित करनी

तय की गई है। उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट Mip:// www.sriamarnathtinance.in/ indext36s.html?event=Bcard%20Mesting%20Notice एवं साथ में बीएसई की वेबसाइट www. bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

कृते वी अमरनाथ फाइंनेन्स लिमिटेड इस्तान, (राकेश कपूर)

(प्रबन्ध निदेशक) दिनोक :21,06,2021 इन्ट्रिप्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पंजी. कार्याः सी-24, डिफेन्स कॉलोनी,

नई विल्ली-110024, भारत

Tel: +91-11-41552579, Email: info@integrated techin Website: www.integratedtech.in, CIN: L31909 DL 1995PLC277176 बोर्ड की बैठक एवं ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की

सेबी (सुबीयन टायिन्च एव उद्घाटन अपेक्षा) विनियपन 2015 के विनियमन 29 तमा लागू होने वाले अन् **भिनियमनों के अनुमालन में कृपया ध्यान रहे कि** इन्टोप्रेटेड टेक्नोलॉगींग लिपिटेड के निदेशक पडल की एक बैठक २५ जून, २०२१ को २,०० बने अप, में सी-24. डिफेन्स कॉलोनो. नहं दिल्लो-110024. में कप्पनी के पर्गोकृत कार्यातय में आयोगित को गायेगी गिसमें अ पार्च, 2021 को सपाप्त तिपाती तथा दिन वर्ष के अकेक्षित <u>शिनीय परिणापों (स्टैंडएर्लॉन) तमा उससे गुड़े विषयों पर</u>

विवार तमा अनुमोदन किये जाएो। पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन. 2015 तमा सेबी पत्र रेफ. स. LIST/COMP/01/2019-20 तिमि 2 अप्रैल 19 के अनुपालन में कप्पनी की प्रतिभूतियों में कारोधार के लिये ट्रेडिंग विषडों 01.04.2021 से अनुस्चित बोडे बैठक को पूर्गता से 48

मरे तक बद रहेंगे। इन्टीप्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिपिटेड के लिए स्थान: नई दिल्ली

(कप्पनी संविव एवं अनुपालन अधिकारी,

आईएनसीए –25 क

सम्पक्ष, दिल्ली क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 14

जी देंड टाबर, नेताजी सुभाष फ्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-

आम जनता को यह सूचना ही जाती है की कंपनी ब

ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीक 17 मार्च

2021 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित

विशेष संकल्प को शर्ती के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी में संपरिवर्तन की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वीत

निषमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धार

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण

यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पढ़ने की संभावना

है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्राकाशन की तारीक सं

चौदह दिन के भीतर उपरितिखित पते पर आवेदक कंपनी

के रेजिस्ट्रोकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी

हलफनामें द्वारा आपनी आपत्ति भेन सकता है या किसी

के माध्यम से भिनवा सकता है या रेनिस्ट्रीकृत

बी-2 जिंग, रोबेट फ्लेट, पर्यवरण धवन, CGO ऑप्पलेका

नई दिल्ली -110003 को उसके हित और आपत्ति

के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया नायेगा।

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L74999DL1982PLC014411

पंजी. कार्यालयः २०४, मैग्नम हाउस- II,

करमपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-

110015, www.jtel.co.in

E-Mail: jagattradingenterprises-

limited@gmail.com

सेबी (सुबीयन दायित्व तमा उद्गोषणा अपेका)

विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा 29 के प्रावधानों

के अनुपालन में एतद्भारा सुबित किया जाता है कि

कप्पनी के निदेशक पड़त की एक बैठक बुधवार, 30

जून, 2021 को आयोजित को जाएगी। अन्य विभयों के

साम 31 पार्व, 2021 को समाप्त तिपाही तमा द्वात वर्ष

के तिये कप्पनी के अकेक्षित हातीय परिणामों पर विचार.

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन. 2015 तथा

इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कप्पनी की आतरिक

सहिता के अनुसार कम्मनों को प्रतिभृतियों में कारोबार के

तिये ट्रेडिंग विण्डो गुरुवार. 01 अप्रैत. 2021 से

शुक्रवार. २ बुलाई. २०२१ (दोनों दिवस सहित) तक बद

यह सूचना कप्पनी की वेबसाइंट www.jtel.co.in

तमा साम हो एपएसई आई की वेदासाईट

जगत देखिंग एंटरप्राईजेज लिपिटेड के लिये

www.msei.in पर भी देखी जा सकती है।

तिथि: 21.6.2021

अनुपोदन कर उसे अभितेख में तिये गाएं।

मैशेर्स सूर्य गर्थेन्ट्रस लिमिटेड की और से

द्रापरेष्टर

डिन- 00009945 स्थान : दिस्सी

पोस्ट द्वारा भेन सकते है निसमें संबंधित क्षेत्रीय निदेशक

14 के अधीन आवेदन किया है।

110034 में विकार है के मामले में, आवेदक

एवन मकन्टाइल लि. CIN: L17118UP1985PLC026582 पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्राकाशित किया जाने वाला विज्ञापन श्रेत्रीय निदेशक, कांपीरेट कार्य मंत्रालय के

रिवि: 21 जून, 2021

अनुपोदन किए जाएंगे।

स्थानः दिल्ली

पंजी. कार्यालयः एस ग्लोबल नॉलेज पार्क, १९ए एवं १९बी, सेक्टर-१२५, गौतम बुध नगर, नोएडा, उ.प्र.-२०१३०१ Website: http://www.avonmercantile.in/ भारतीय प्रतिभूति और विनिषय गोर्ड (सूचीयन दायिक कंपनी (निगयन) नियम 4) के मामले में और मैसेर्स स तथा ठद्भाटन अपेक्षा) विनियमन, 2013 के विनियम भनेन्ट्स लिमिटेड जिसका रेजिस्टोकृत कार्यालय 301,

29 के साथ पठित विनियमन 47(1)(ए) के अनुपालन में एतद् द्वारा सुनिस किया जाता है कि कंपनी के निदेशक पंडल की एक मैठक मुधवार, 30 जून, 2021 को 1.00 गजे अप. में कान्फैंस रूप कपरी बेरपेन्ट), रपाइस पाल, आई-2, रोष्ट्रर-25 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में आयोजित क जाएगी जिसमें अन्य शिषयों के साथ 31 मार्च, 2021 को रापाप्त रिपाड़ी राधा वर्ष के अंक्रेक्षित विनीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन क्रिए जाएंगे। ओई द्वारा कप्पनी का अंक्रेक्षित परिणाप रहीकृत हो जाने के गाद ठरो कंपनी की रोग्नराईट अर्थार http://www.avonmercantile.in/ एवं ভৌত वेगसाईट एक्सचैज की https://www.bseindia.com/

https://www.cse-india.com पर भी उपलब्ध एवन पर्केन्टाईल लि. के लि

कपलापीत कश्वप निदेशक DIN:02359002

तिथि: 21.0.2021 स्थानः नोएडा

> आईओ सिस्टम लिमिटेड CIN:L65921UP1987PLC008764 पंजी. कार्यालय : ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए एवं 19बी, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर अदेश- 201301

ई-पेल : iosystemltd@gmail.com

रोबी (सूचीयन दायित्य एवं उदमादन अपेक्षा

विनियमन, २०१५) ("एलओडीआर विनियमन") के विनियमन २५ के साथ पछित विनियमन 47(1)(ए) के प्राथधानों के अनुसार एतद्**द्**रार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक पंडल की बैठक बुधवार, 30 जून, 2021 की कॉन्डेनेंस रूप (कपरी शेख्योन्ट), स्पार्ट भारत मॉल, 1-2, रोक्टर-25ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-*2*01301 ^र आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साध एलओडीआर विनियमनों के विनियमन ३३ के अनुपालन में 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाई तथा वर्ष के अंकेक्षित वितीय परिणामों पर विशार अनुपोदन कर उसे अधिलेख में लिये जाएंगे। कम्पनी का अंकेक्षित परिणाप बोर्ड द्वारा एक आर रवीक्त हो जाने पर कम्पनी की वेधाराईट

www.bseindia.com पर ठपलब्ध होगा। स्थानः नोएडा

मुंबई, 21 जून (भाषा)। FORM NO. URC.2

Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014) Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, ar application has been made to the Registrar at Delhi that VALCREAT INDUSTRY X.O STRATEGY AND TECHNOLOGYADVISORS LLP a LLP may be registere under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares The principal objects of the company are as follow To render advisory and technical products and services to

नीरजा शम

रेलटेल

रेलटेल द्वारा 'रेलटेल के ओएफसी आधारित संघार

रिटवर्क के लिए प्रस्तावित ट्रैफिक मैट्रिक्स, मौजूदा

डीडब्ल्युडीएम नेटवर्क विन्यास और फाइबर

वेशेषताओं के अनुसार डीडब्ल्यूडीएम वैनल क्षमता

नंबर्धन के लिए समाधान" हेतु योग्य बोलीदाताओं से

www.railtelindia.com पर उपलब्ध है और

इंडिनलोड की जा सकती है। परिशिष्ट/

शुद्धिपत्र केवल रेलटेल देवसाइट पर ही

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.

3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena,

New Friends Colony, New Delhi-110025

MOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant

to clause 29 of the SEBI (LODR),

Regulations, 2015, a meeting of the

Board of Directors of the Company

will be held on Wednesday, the 30th

day of June, 2021 at the Registered

Office of the Company, inter-alia, to

approve and take on record the

audited financial results for the

quarter and year ended on 31st

पञ्जपति स्पिनिंग एड

CIN: L74900HR 1979PLC009789

वेबस्त्रहः www.pasupatitestiles.com

टेली.: 47632200

पत्री, स्नावांलव: ग्राम क्यारेक्स (आहरेए),

जिला 'खड़ी, हरियमा

प्रधान स्मयांसय: 127-128, विभूवन कॉम्स्लेक्स,

वृंख्या नगर, गर्व दिल्ली-110065

एतर्क्काए मुख्ति किया जाता है कि कम्पनी की बोई तथा अदिए

क्रीरी को बैठक बुधवार, 30 जूर, 2021 को अधीवित की

जायेगी जिसमें अन्य विवयं के साव 3132021 को समस्त

तिमारी तथा वर्ष के लिने कम्पनी के अंकेनित विश्लीय परिणामी पर

मेग्नम घन्चस लिमिटेड

CIN: L21093DL1980PLC010492

पर्योक्त क्षवांलवः आफिष न. २०३, २० वल, बिल्डिब

a326. गली न 3. क्षप्ताचे चेद्र. द्वीवाबज दिस्सी-110002

Email Id: magnumventures@gmail.com,

Website: www.magnum.ventures.in

प्रेजी (प्रृतीयन इतिस्त तथा उद्घाटन अपेक्षा)

विनिवयन, 2015 के विनिययन 47 के सामपिठत

विनिवयन 29 क्या अन्य लाग् होने धाले प्राधधानों, यदि

कोई हो, के अनुपालन में एतट् द्वारा प्रृचित्र किया जाता

है कि कंपनों के निदेशक मंडल की एक बैठक

पंगलवार, २९ जून, २०२१ को १२.१० बजे अप, "

19/1. साइट-TV. औशोगिक श्रेत्र, साहिबाबाद

गाजियाबाद में कंपनी के कार्पीरेट कार्यालय मे

आ वीजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साम ही

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमान्ने तमा उर्घके लिए

कंपनी के अंकेश्विक विलीव परिणामों पर विचार तथा

यह सुनम कंपनी की वेबसाइंट www.magnumven-

tures.in के स्विप्तक संपर्क छंड में क्या स्टॉक एक्सवेंब

की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं

www.nseindia.com पर भी उपतब्ध है।

पत्रुपवि एषपीत्री एड डब्स्यूबीत्री मिल्स लि के लिये

For National General Industries Ltd.

By order of the Board

Vandana Gupta

द्वीपिका बल्ह्येश

क्रमची प्रविव

अभय जैन

पूर्ण-कालिक निदेशक

Company Secretary

-टेंडरिंग पोर्टल https://www.ireps.gov.in से

-निविदा आमंत्रित की जाती है

प्रपलोड किये जाएंगे।

March, 2021.

Place: New Delhi

Date: 21.06.2021

विदा सूचना और निविदा

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Advertisement giving notice about registration

under Part I of Chapter XXI

public and private enterprises on business and corporat trategy, digital strategy, innovation, human capital strateg echnology strategy, joint ventures and strategic alliances, figitization, business-process improvement, corporate estructuring, mergers and acquisitions, transaction advisory, strategic management, strategic outsourcing. figital transformation, business transformation, data analytics and data science. IT architecture, corporate overnance, risk management, executive search, talent solutions, leadership solutions, change management, ethics and compliances, operational excellence, program management, and implementation services. A copy of the draft memorandum and articles of associatio of the proposed company may be inspected at the office at 83/451, 2nd Floor, Paschim Vihar, New Delhi 110063

Notice is hereby given that any person objecting to thi

application may communicate their objection in writin

to the Registrar at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place

कार्यदाने गत-

कर्वदाने/जन्मनती के नाम

मोहन लाल मिश्रा

सन्तोष देवी

स्पेस मार्केटिंग

एण्ड रिटेल ट्रेडिंग

. कुसुम शर्मा

4. चन्द्र शेखर

. मैसर्स कृष्णा फैसी

ओम प्रकाश शर्मा

ज्याम लता जर्मा

गोपाल लाल जवां

. युगल किशोर शर्मा

New Delhi - 110019, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the compan at its registered office. Dated this 22nd day of June 2021 Name(s) of Applicant Mr. Puneet Kumar Bhatia

. Dr. Girish Kumar Venkata Uppulluri

ऋण खाता सं.

000000014275

रक्षान : जबपुर/उदयपुर (राजस्थान)

स्थान : शामली

देनॉक : 21.06.2021

हरुताक्षरकर्ता के पारा पहुंच जाये।

ORIX

महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मशरिफ ने सोमवार को कहा कि 70 फीसद लोगों का कोविड-19 टीकाकरण होने से पहले राज्य में स्थानीय

महाराष्ट्र में 70 फीसद लोगों के टीकाकरण

महाराष्ट्र में रविवार तक 2,76,99,419 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मुशरिफ कोल्हापुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे महाराष्ट्र के मंत्री एवं कांग्रेस

पशुपति फिनकेप लि.

CIN: L65990HR 1996PLC033099

वेबणईटः www.pasupatifincap.co.in,

देली.: 47632200

धंबी, कार्वातवः जम कथर्गवार (शालोर), विता

रेवाहो, ग्रीसामा

प्रयाप कार्यालयः १२७-१२३, जिनुवन कांप्यतेवार, ईरवर

नगा, क् दिल्ली-110065

एतद्द्वारा एचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड तथा

अंडिट कमिटी को बैटक मंगलका, 29 जून, 2021 को

अभोजित को जामेरी जिलमें अन्य विभन्ने के साथ

31 3 2021 को एमाप्त तिमाही तजा वर्ग के लिने कन्पनी के

पञ्जपवि फिरकैप लिमिटेड

विद्येत और

प्रतिभूत आरित का विवारण

विहार, हीरापुरा पॉयर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जवपुर,

राजस्थान-302006 में, कथित सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : अन

फ्लॉट/परिचम : सहक/उत्तर : सहक/दक्षिण : अन्य फ्लॉट

भूमि तथा भवन, प्लॉट सं. ४७० (पुराना) 528 (नपा) शतक

प्राप्त माद्री पनेरिवान (खसरा नं. 553 से 617, 621 से 649 659

से 667 671 674 से 752 754 से 787 791 793 से 794 79

से 805 808 811 से 832 1848/776 उदयपुर, राजस्थान क

सम्पूर्ण भाग, कथित सम्पति की सीमाएं । पूर्व : अन्य की

सम्पत्ति/पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति/उत्तर : अन्य की

भूमि तथा भवन फ्लॉट नं. डी-270, ब्लॉक-डी, सर्वानन्द मार्ग

मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017 का सम्पूर्ण भाग।

कवित सम्पत्ति की सीवाएं : पूर्व : सदक/पश्चिम : अन्य की

तम्यचि/उत्तरः। अन्य को सम्यचि/दक्षिणः। अन्य की सम्यचि।

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेप्रियल सर्थिसेज इंडिया लिबिटेड

ह./- अधिकृत प्राधिकारी

पैकज पीयुश देड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड

पर्वे. कार्यतंत्रे अन्. वैगा वत. प्लॉट र ३० के गारे

आप्त.मी. पीत. गेल्टर-७. सेडियी. पर हिल्ली-। 1008.5

CIN: L659900 L1982PL C256291,

फोर र - वा।-ब2304171

E-MAIL: Infoppttmestment.com

We latte: www.ppttmeatment.com

er (1) (0) are 23 to allower to compart from their court for

पंतर पोस्न है 5 dis 4 के 1 हरेंट मिक्टि 5 के विहेनक वंडल को 21 20 la . 21

बैठक वंबरकार 27 कुर 2021 को 6,00 बर्क रहि का है कारको के वंबीकर

कुर्कालक के बुक्केंद्रिए की कर्ने में कि एकेंद्रा कर्क क्राप्टा की उत्तर है कर्न

ما و الربوا لا وليجود و معالم ما معاهدا ووالمراو و معام مع

पुरः १५७ कियान करावते को बेन्द्रानांद शायतंत्र www.gplum-estiment

apis'

एपिस इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L51900DL1983PLC164048

पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर,

नई दिल्ली-110008

दुरभाषः 011-43206650 | फैक्सः 011-25713631

ई-मेल: mail@apisindia.com

वेबसाइट: www.apisindia.com

प्तद्दवारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीकरण

दायित्व और उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के

विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार,

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 30 जून,

2021, को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 18/32, पूर्वी

पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में, आयोजित की

जाएगी जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित

व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए विचार विमर्श

रु. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वितीय वर्ष

के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों

there will be you grader that cariff I

frfer 21.62021

15 जून भूमि तथा भवन, प्लॉट सं. ई-12 का सम्पूर्ण भाग, जानकी

अंकेरित विहोस परिवामों था विचार किसे जाएंगे।

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

प्लॉट सं. 94, मरोल को-ऑपरेटिय इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड,

अधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059

(वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की

भारा 13(2) के तहत सुवना)

निर्मालिख्य कर्जकरों तथा एक-कर्जकरों ने ओखिए लीजिंग एम्ड कार्नेत्रियल एकिएँव ईडिया लिपिटेड से निर्मालिख्य एकिन्त ऋग स्कर्म किये

निम्नतिद्धित कर्जकों के ऋग उनको एंबळ सम्महिमों को बंधक द्वारा प्रतिगृत किसे पसे हैं। चृकि वे सम्बन्धित ऋग अनुबंधों के निमम एवं उत्तौ का पातन

करने में अएकत रहे हैं और अनिमधित हो गमे हे. अतः भारि हैं के दिशा-निर्देशों के अनुगर उनके ऋषों को एनपीए वर्गीकृत कर दिम गमा। ओरिका

क्षीजंब एवड क्यर्नेशियक सर्वितेज र्रोडमा लिपिटेड के असि उनकी बकामा तशि जाते की गमी संबंधित सुख्नाएं के अनुसार उस्लिखित 🕏 और निम्मलिखित

हासिका में विशेष रूप से वर्षित है तब कवित होति पर भावी ब्याज भी उमीज्य होगा जिसे संबंधित तिथियों से अपूर्वध दर के अपूरार उभारित किया जायेगा।

2021

ऋण का 13(2) यूचन के सुवना

31,19,646,39/-

28,25,459.88/-

1,52,43,191.72/- 2021

लद्वारा उपर्कुक तालिका में प्रदर्शित विवास के अनुसार ओरिक्स एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के वकाख तथा उनकी संबंधित तिथियों से उस पर अनुबंधात

व्याज एयं अन्य लागते, प्रभारों आदि का इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा बाता है जिसमें असफल रहने पर अभोहरलाक्षरी ऑस्कि

लीजिंग एण्ड काइनींशपल इंडिया लिप्टिंड को सकाय शीरा की समुली के लिए उपमुंबत संधक सम्पन्तियों के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम की धारा 15(4) एवं धारा 14 के तहत

कार्यवाही करने के लिए बाज्य होगा। पुनः अचको कथित अधिनियम को धारा 13(13) के तहत विक्री/पट्टे या अन्य विधि से कथित प्रतिभूत आस्ति को हस्तानारित करने से

एण्टरप्राईर्जेन

कृते सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

अजय कुमार जैन

कम्पनी सचिव

प्रतिभृत

350

एसएकई

प्रतिभूत

पंजीकृत कार्यालय - अपर दोआब शूगर मिल, शामली (उत्तर प्रदेश)-247776

CIN: L51909UP1933PLC146675

Website: www.sirshadilal.com E-mail: udsm_shamli@sirshadilal.com

एतदद्वारा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (एल. ओ. डी. आर.) अधिनियम २०१५ के

नियम 29 (1)(ए) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संवालन मंडल की बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनॉक 29 जून, 2021, को होनी निश्चित हुई है, जिसमें

आखिरी त्रैमासिक (01.01.2021 से 31.03.2021) के परीक्षित वित्तीय परिणामों व 3:

मार्च, २०२१ को समाप्त कम्पनी के परीक्षित वार्षिक लेखो पर विचार किया जायेगा । इसके

अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारी/संचालको एवं उनके रिश्तेदारो के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियो

की खरीद फरोख्त कम्पनी के वित्तीय परिणामों के प्रकाशित होने के 48 घंटे तक बन्द रहेगी

प्रपत्र सं. एनसीएलटी ३ ए

याचिका के शिवरण का विज्ञापन

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

कम्पनी बाविका सीपी (सी ए ए) ने. 2/सीएवडी/एवआखाई/2021 कम्पनी

अधिनियम, 2013 के मामले में :

इंडियाबुल्स प्रापर्टाइज प्राइबेट लिमिटेड-याचिकाकर्ता कम्पनी। /डिमर्ज्ड कम्पनी

बीएक्सआईएन ऑफिस पार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-याचिकाकर्ता कम्पनी2/परिणामी कम्पनी

उसके संबंधित शैयस्थारकौ

याविका की सुबना

इंडियावुल्स प्रॉपर्टीन प्राइवेट लिपिटेड तथा बीएक्सआईएन ऑफिस पार्क्स इंडिया प्राइवेट लिपिटेड

(सामुहिक रूप से 'याचिकाकर्ता कप्पनीन' वर्णित} तथा उसके संबंधित शेयर धारकों के बीच

सपापेलन की योजना की स्वीकृति के लिये पाननीय राष्ट्रीय कप्पनी विधि अधिकरण

(''एनसीएलटी'') की चंडीगढ़ पीठ के रापक्ष कप्पनी अपिनियप, 2013 की भारा 230-232 तथा

लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अंतर्गत 19 पार्च, 2021 को एक याचिका दाखिल की गई थी तथ

उक्त याचिका पर एनसीएलटी के समक्ष 11 अगस्त, 2021 को सुनवाई होनी निर्धारित की गई है।

डक्त याचिका का रापर्थन या विरोध करने के इच्छ्क कोई भी व्यक्ति उनके नाप एवं पते के सा

उनके या उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरकर्ता अपने आशय की सूचना याचिकाकर्ता कप्पनियों, नीचे

वर्णित प्राप्तिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पास अपने आशय की सूचना इस तरह से भेजें ताकि वह याचिका

की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि को या पूर्व याचिकाकर्ता कम्पनियों नीचे वर्णित प्राप्तिकृत

यदि वे याचिका का विरोध करना चाहते हों तो आपत्ति के कारणों तथा शपथ-पत्र की एक प्रति उस

सूचना के साथ प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्भारित शुल्कों के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक

किसी भी व्यक्ति को याचिका की प्रति अभोहस्ताभरी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

विष्य: 21.6.2021

निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक,

नेता विजय वडेट्रीवार के बयान को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल नहीं होगा, तब तक वह स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति

मुशरिफ ने कहा, 'कोरीना महामारी के चलते, जब तक 70 फीसद टीकाकरण नहीं हो जाएगा, तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। इसलिए, तब तक आरक्षण का मुद्दा भी हल हो जाएगा।' शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक हारा

से पहले स्थानीय निकाय चुनाव नहीं : मंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राकांपा और कांग्रेस पर शिवसेना को कमजोर करने का आरोप लगाने के सवाल पर मुशरिफ ने इसे भाजपा द्वारा राज्य की गढबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, 'राकांपा और कांग्रेस राज्य में कहीं भी शिवसेना को कमजोर करने का प्रयास नहीं कर रहे। दोनों ही दल महा विकास अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं।'

कर्नाटक : 17 जिलों में होटल व जिम खुले, मेट्रो और बस सेवा शुरू

बंगलुरु, 21 जून (भाषा)।

कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के कर्नाटक प्रशासन के निर्देशों के मद्देनजर बंगलुरु शहर समेत राज्य के 17 जिलों में सोमवार को होटलों की सेवाएं फिर से शुरू हो गईं, जिम फिर से खुल गए और सार्वजनिक परिवहन बसों एवं मेट्रो का परिचालन पुनः आरंभ हो गया। 'अनलॉक दो' के तहत नए दिशानिर्देश सुबह छह बजे से लागु हो गए और ये पांच जुलाई को सुबह पांच बजे तक लागु रहेंगे।

जहां लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर पांच फीसद से कम है, उन 17 जिलों में दुकानें सोमवार से सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी और 50 फीसद क्षमता के साथ बस एवं मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का परिचालन भी आरंभ हो गया। हालांकि 50 फीसद क्षमता के साथ बसों के चलने के कारण शहर के कई स्थानों में बस अड्डों पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। अन्य स्थानों से भी इसी प्रकार की खबर मिली हैं।

कर्नाटक राज्य सङ्क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने कहा है कि वह स्थानीय और अंतर-जिला बस संचालन के लिए शुरू में 3,000 बर्सी की सेवा उपलब्ध कराएगा, लेकिन बंगलुरु मेट्रोपोलिटन परिवहन निगम (बीएमटीसी) ने कहा था कि वह 2,000 बसें चलाएगा। बीएमटीसी के अधिकारियों के मुताबिक, सुबह आठ बजे तक कुल 796 बसौं का संचालन किया गया। बिना वातानुकूलन वाले रेस्तरां, ब्लब और होटल बैठने की 50 फीसद क्षमता के साथ शाम पांच बजे तक ख़ुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, आधी क्षमता के साथ जिम खुले और पार्क सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक ख़ुले रहेंगे। पचास प्रतिशत तक बुकिंग के साथ लॉज और रिसॉर्ट का संचालन, दर्शकों के बिना आउटडोर खेल गतिविधियों और फिल्मों की आउटडोर शृटिंग को भी सोमवार से अनुमति दी गई है।

सप्ताह के कामकाजी दिनों में शाम सात बजे से सुबह पांच बर्ज तक कप्यूं रहेगा और सप्ताहांत के दौरान शुक्रवार को शाम सात बजे

> से सोमवार को सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में कपर्यू रहेगा।

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED Registered Office: Statesman House 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN- L74899DL1993PLC053034 Website: www.internationalsecuritiesltd.com

Email: isl@bol.net.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. on the ej toya dange aj gentijo mmm pranqia com m. that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 30th June, राजन रोक्स हैन एन अनेन्टरीए लिंग्डेन के लिंग 2021, inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the year and quarter ended on 31" March, 2021 he information contained in this notice is also vailable on the Company's website at

www.internationalsecuritiesItd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd – www.msei.in. For INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Rajeev Kumar Gupta Place: New Delhi Whole-Time Director Date: 21.06.2021 DIN: 00039399

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड सीआईएन: L67190DL1993PLC052050 गंजीकृत कार्यालय: ए-2/3, तीसरी मंजिल, लुसा टॉवर, आजादपुर कमर्शियल काम्प्लेक्स, दिल्ली-110033 दुरभाष: 011-47020100, 27674615, फेक्स: +91-11-47619811,

बोर्ड मीटिंग के लिए सूचना तदहारा सुचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **मंगलवार, २९ जून, २०२१** को कंपनी के पंजीकृत ठायोलय **ए-2/3, तीसरी मंजिल, लुसा टॉवर, कमर्शियल काम्प्लेक्स दिल्ली-११००३३** में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ **३१ मार्च, २०२१** को समार हुए वर्ष और तिमाही के लिए अंकेक्षित वितीय परिणामी (स्टैंडअलोन और समेकित दोनों) पर विचार और अनुमोदन

(स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार करने, अनुमोदन करने और रिकॉर्ड में लेने के लिए। ख. आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरथारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वरीयता शेयरों पर लाभांश की

सिफारिश, यदि कोई हो, पर विचार करने के लिए। ग. अथ्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय। इसके अलावा उपरोक्त के प्रयोजन के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो को बंद करने के बारे में सूचना [अर्थात गुरुवार, 01 अप्रैल, 2021 से बोर्ड की बैठक की तारीख के अइतालीस (48) घंटे बाद


तक] कंपनी की प्रतिभृतियों में लेनदेन के लिए स्टॉक

एक्सचेंजों को पहले प्रस्तुत किया जा चूका है।


उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। एपिस इंडिया लिमिटेड के लिए

> अमित आनंद (प्रबंध निदेशक) डीआईएन : 00951321

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 21 जून, 2021



बीएक्सआईएन ऑफिस पार्क्स प्राहवेट लिमिटेड के लिये



ई-प्रापण सॉल्यशन के अनुपानित के पाथ्यप से जारी पाथ्यम से निह्निता प्राप्ति की तिथि 94500/-21.6.2021 निनिदा आईडी न. मद दर 2021 DJB 204630 I अप. में

की अतिम तिबि/समय 5.7.2021 के 1.00 बने

कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू) VII

ईमेल: titan.securities@yahoo.com इस नोटिस के संबंध में और विवरण कंपनी की वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। कृते मैसर्स टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड आकाक्षा शर्मा स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 21.06.2021 (अनुपालन अधिकारी) दि दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटिड (CIN: L74899DL1937PLC000478) पंजीकृत कार्यालय : 86, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (भारत)

29 (1) (ए) के साथ पठित सेबी के विनियमन 47 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमों, 2015 के अनुसार, एतदद्वारा यह सूचित किया गया है कि मैसर्स दि दिल्ली सेफ डिपॉजिट कं. लिमिटिड के निदेशक मंडल की बैठक, सेबी के विनियमन 33 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुपालन में, 31 मार्च 2021 को चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष समाप्ति के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन करने और संबद्ध और अन्य मामलों को उठाने के लिए बुधवार, 30 जून, 2021 को

फोनः 011-43580400, 23321902

ई-मेल delsafe@dsdgroup.co.in

वेबसाइट : www.dsdgroup.co.in

सूचना

प्रातः 11:30 बजे विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित होने वाली है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, 'ट्रेडिंग विंडो' की करीबी अवधि गुरूवार, 1 अप्रैल 2021, से शुक्रवार 02 जुलाई 2021 तक सभी निदेशकों, अधिकारियों और नामित कर्मचारियों के लिए बंद रहेंगी।

दि दिल्ली सेफ डिपॉजिट कं. लिमिटिड

(विजय कुमार गुप्ता) स्थान: नर्ड दिल्ली दिनांक: 21/06/2021 प्रबंध निदेशक / सीईओ

स्थानः कोलकाता दिनांक: 21.08.2021

www.readwhere.com

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार एनएसटीपी कॉरोनेशन पिलर दिल्ली-110009

इंडियावुल्प प्रॉपर्टाइज प्राहवेट लिमिटेड के लिये

प्लॉट ने. 448-451, उद्योग विहार, फेज-V

प्रेस निविदा आमंत्रण सूचना सं:: 3 (2021-22)

कार्य का निन्राण

प्राधिकृत हरताक्षरकर्ता

गुरुप्राम-१२२०१६, हरियाणा

422-बी, उद्योग विहार, फेज-IV

ग्राम ड्रण्डाहेरा, गुरुग्राम-१२२०१६, हरियाणा

प्राधिकृत हरताक्षरकर्ता

विशाल थरवारी

विशाल श्वरवारी

पी.आर.ओ. (जल) डारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.ची. 2021-22/128

स्थानः नई दिल्ली

बोर्ड के आदेश से

निर्मल कुमार टपरिया

कप्पनी सिवव

www.iosystem.co.in वधा औएसई की वेशसाईट आईओ सिस्टम लिमिटेड के लिये हसार/

(अरुण सेठ) निवेशक

DIN:00007895

तिथि: 21.6.2021

नरेला एसटीपी में सभी सबधित इंएडएम उपकरणों के प्रवालन एव छोटे मोटे रखरखाव के तिये कपंचारी को तैनाती इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों के साथ एनआईटी के अमिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

(अभि. औ.पी. यादव)